

इंडियन रेलवे फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) (सी आई एन : L65910DL1986GOI026363)

पंजीकृत कार्यालय : रूम नं. 1316 & 1349, तीसरी मंजिल, दि अशोक, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव 50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

दूरभाष : 011-24100385

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise) (CIN : L65910DL1986GOI026363)

Regd. Office : Room Nos. 1316 – 1349, 3rd Floor, The Ashok, Diplomatic Enclave:- 50-B, Chanakyapuri, New Delhi 110021

Phone : 011-24100385, E-mail : info@irfc.nic.in, Website : www.irfc.nic.in

No: IRFC/SE/2021-22/27

9th August, 2021

National Stock Exchange of India Limited Listing department, Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400 051 Scrip Symbol: IRFC	BSE Limited Listing Dept / Dept of Corporate Services, PJ Towers, Dalal Street, Mumbai -400 001 Scrip Code: 543257
---	--

Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015


Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, please find enclosed Newspaper Clipping of the advertisement published in English and regional (Hindi) newspaper(s).

This is submitted for your information and record.

Thanking You,

For **Indian Railway Finance Corporation Limited**



(Vijay Babulal Shirode)
Company Secretary & Compliance Officer

Enclosure: As Above



Hilton eyes the big box in India

After two failed partnerships, the 102-year-old international hospitality chain hopes to expand its presence in the country with at least 12 mega-projects



PAVAN LALL
Mumbai, 6 August

Hilton Worldwide Hotels, the storied international hospitality chain that was founded over a century ago, is on the lookout to set up a "big-box" hotel to augment and bolster its presence here, its leadership in India said.


Navjit Ahluwalia, who is country head of Hilton India, runs 21 hotels with around 3,500 keys, and has hotel brands such as the Hilton, Hilton Garden Inn, Doubletree and Conrad, admits that the Hilton journey in India had been slow but it is on track to now focus on setting up a flagship hotel either in Mumbai or in New Delhi. And that they are scouting for the right partners.

A big-box hotel can be loosely defined as a large complex with several hundred rooms, banquet halls, conference rooms and multiple service offerings that can include service apartments, shopping arcades and more. They are also more complex projects to finance, execute and develop as opposed to smaller boutique assets.

Hilton had announced a joint venture partnership in 2006 with realty player DLF in a bid to expand the company's footprint in India but that never panned out.

ROOMS WITH A VIEW

(Offshore operators in India)



Source: Companies

Earlier still, the company attempted another tie-up with luxury player Oberoi Hotels between 2004 and 2007, which was a brand and marketing alliance between the Hilton and the Oberoi's Trident hotels, but that also came to an end because of differences between the two chains.

In the meantime, other foreign chains set up big-box properties that have cemented their reputations and established presence in the local markets. Examples are Accor's Sofitel at the Bandra Kurla Complex in Mumbai, the JW Marriott in Juhu and, to an extent, even the Leela Hotel in Chanakyapuri, Delhi, despite its cost overruns.

"If you look at the MGM

Grand in Las Vegas, it has thousands of rooms and the point is, how much is the demand in that market to drive that sort of capacity," said Patu Keswani, founder of Lemon Tree Hotels. "India only has two deep markets — Delhi NCR (National Capital Region) and Mumbai — which will have the capacity to absorb demand, and the high cost of land makes barriers high as well." Keswani is building a 670-key, million-square foot, ₹1,000-core hotel close to the airport in Mumbai and is hopeful of getting it up and ready in around two years.

Ahluwalia said despite the absence of such large flagship hotels he sees glimpses of success in key locations such as the Hilton Shillim in Lonavala,

which has been running high on occupancy and charging rates as high as ₹20,000 even during the downturn over the last couple years.

"We missed out on dramatic growth because of failed partnerships but are looking to get past that now given that India will be the third largest market for hospitality in the world," he said, adding that they have at least 12 hotel projects in the pipeline. Other large markets include the US and China.

Currently, he pointed out, there is "extreme pressure" on the industry with occupancies across the board having crashed from around 80 per cent to between 30 and 40 per cent. "Obviously we are turning to focus on how to regenerate business, and one initiative has been the Hilton Honours points programme, which is a loyalty scheme that earlier was only for lodging but now also includes F&B."

Key challenges for the Hilton Group in India include bringing back occupancies to earlier levels, increasing their share of inbound foreign business travel guests, creating an F&B culture and footprint, and pushing rates back to pre-pandemic levels, something which most hotels are grappling with, said analysts who track the sector but declined to be named.

The broader question that remains is this: Do hotel chains really need big-box hotels and is the mythology of the flagship or the myth with character just that or does it just need a prime property to project its values? Ahluwalia said Hilton's international brands such as Curio and Tapestry do have a personality and every chain needs a brand recognition icon.

Industry-wise, the landscape is different now. Big-box hotels were largely developed by real estate developers as they were making money on residential sales and using the profits to build hotels that are really commercial properties and very cash intensive, so they needed those profits to do so. "Now this industry will go through some consolidation because real estate developers are also seeing consolidation. The sector has seen a triple whammy with rentals, residential sales and hotels all slowing down but big business hotels will return and the big-box hotel will be here in the long term," Anuj Puri, chairman and founder, Anarock Property Consultants predicted.

The bottom-line is that all it takes is one big-ticket hotel to change the perception of a chain and put it back on the map, Ahluwalia said, adding, "We remain committed to India."

The first soft signal of return to normalcy?



BANKER'S TRUST

TAMAL BANDYOPADHYAY

There is no surprise in the outcome of the three-day meeting of the Monetary Policy Committee (MPC) that ended on Friday.

Based on "an assessment of the evolving domestic and global macroeconomic and financial conditions and the outlook", the Indian central bank's rate-setting body has kept the policy rates unchanged. The decision is unanimous. It is also in favour of continuing with the accommodative stance "as long as necessary" to "revive and sustain growth on a durable basis". Just one of the six members of the MPC did not support this.

Still, the subtext of this policy is a bit different from the June policy. The Reserve Bank of India (RBI) sounds relatively more confident on growth now and, at the same time, its concerns on inflation are clearly higher. In fact, it has raised its inflation projection for the year closer to the upper end of the band that the MPC is targeting.

This — along with the doubling of size of the 14-day variable rate reverse repo, or VRRR, auctions, from ₹2 trillion to ₹4 trillion in the second quarter of the financial year — may encourage some of us to interpret the latest policy as a soft signal to return to normalcy. This is why the 10-year bond yield rose 4 basis points to

close at about 6.24 per cent (previous close was 6.207). A basis point is a hundredth of a percentage point.

RBI Governor Shaktikanta Das has, however, strongly emphasised that the increase in the size of the auction should not be read this way; it's nothing but a tool for liquidity management.

The excess liquidity in the system is at its historic high now — around ₹11 trillion. Among others, the combination of the RBI's secondary market G-sec acquisition programme (G-SAP) and redemptions of a bunch of short-term treasury bills in the second quarter will ensure that the liquidity sugar rush continues to flood the system.

The VRRR, kept in abeyance during the pandemic, was re-introduced in January, and since then the ₹2 trillion absorbed through this window is being rolled over every fortnight. The RBI has now decided to ramp up the size of the VRRR auction in phases to ₹4 trillion by the second half of September. This is parallel to the fixed rate daily reverse repo window where banks earn 3.35 per cent for keeping excess money with the RBI.

Sounding more bullish on growth, the policy statement says the domestic economic activity has started normalising with the second wave of the pandemic ebbing; and although there is no rise in investment demand, better capacity utilisation, rising steel consumption and higher imports of capital goods, among others, should kick-start a "long-awaited revival". It has kept its real GDP growth projection unchanged at 9.5 per cent for fiscal year 2022. For the first quarter of fiscal year 2023, the real GDP growth estimate is pegged at

17.2 per cent.

Like many other central bankers, the RBI Governor has maintained the stance that driven by supply shocks, inflation is transitory; but the inflation projection of the year has been raised substantially, from 5.1 per cent to 5.7 per cent "with risks broadly balanced". Even for the first quarter of fiscal 2023, the RBI projection for inflation is 5.1 per cent, that too on a relatively high base. The MPC's inflation target is 4 per cent with a 2 percentage-point band on either side.

Clearly, the MPC is aware that the threat of inflation is real. At the same time, the green shoots in Asia's third largest economy seem to be showing.

If both the trends continue, the RBI will be left with no choice but to start unwinding the super-accommodative stance of the monetary policy sooner than later. It is bound to start doing so by February 2023, if not in December 2022.

The policy statement says the MPC is conscious of its mandate of anchoring inflation expectations and will act as soon as the prospects for strong and

sustainable growth are assured. For the time being, the RBI remains in "whatever it takes" mode, with a readiness to deploy all its policy levers — monetary, prudential or regulatory — to nurture the "nascent and hesitant recovery".

The writer, a consulting editor with Business Standard, is an author and senior adviser to Jana Small Finance Bank Ltd. His latest book: Pandemonium: The Great Indian Banking Story. To read his previous columns, please log on to www.bankerstrust.in. Twitter: TamalBandyay

As tech evolves, flying cars get ready to take off

DEVANGSHU DATTA
New Delhi, 6 August

The motto of the US state of New Hampshire is "Live Free or Die". Appropriately enough, NH is currently the only US state offering legal certification for flying cars. But while such a vehicle sounds like a figment of science fiction, it could soon become perfectly normal technology.

A month ago, the Slovak company Klein Vision tested its AirCar prototype 1 with a 35-minute flight between Nitra and Bratislava airports. The AirCar's 160bhp BMW engine can take it up to 2,500 metres, propelling it through the air at 190 kmph for round trips of 1,000 km. Once it lands, it takes under 3 minutes to fold up the wings and become a high-performance car. The production version will have an even more powerful engine.

AirCar is one of dozens of flying cars, or drivable aircraft, if you prefer, under development. Wikipedia lists over 30 such designs in development, or, in a few instances, already legally cleared for public use.

Apart from AirCar, there's Terrafugia Transition, which is described as a "drivable light sports aircraft". The Transition has been cleared by America's Federal Aviation Administration and it can be used by someone with a pilot's licence. This two-seater aims to meet the US National Highway and Traffic Safety Administration driving safety standards by 2022. Meanwhile, Germany's Volocopter, is trying to license its VoloCity as an autonomous air taxi.

The Dutch company PAL-V's Liberty has been approved for road usage in Holland. It's passed the road vehicle tests and is seeking air certification.



Drivers will have to undergo flight training to use it, if they don't already have pilot licences.

Alongside boutique engineering outfits, transportation majors are also interested in air-car development. A joint team from BMW, Aston Martin, Lockheed Martin and Airbus is working on the AeroMobil. This vehicle, which can also transform from car to aircraft quickly, has a top speed of about 160 kmph on the ground and 250 kmph in the air. It's already undergone thousands of hours of testing and the first commercial versions are to launch in 2023.

Japanese startup SkyDrive, which is backed by Toyota, is testing its SD-03, an all-electric vehicle capable of vertical take-off and landing (VTOL). Hyundai is looking at an electric VTOL air-car. General Motors' Cadillac Vertile, which was on display at CES 2021, is targeting a utilitarian market, like the Volocopter. The single passenger, all-electric Vertile is an autonomous quad-copter with wheels. It's designed for

urban commutes — VTOL capability lets it land on roofs, or in parking lots.

Audi-Airbus displayed their collaborative Pop.Up Next concept at the Geneva Motor Show in 2017. This is to be a self-driving, self-flying, fully autonomous electric taxi. It uses four wheels to drive on the streets, and an eight-rotor unit for VTOL.

The interest in such vehicles is driven by e-commerce penetration and the popularity of ride-hailing.

The pandemic has also led to a new focus on personal transport. Commuters would like to avoid traffic jams and they're reluctant to use public transport for fear of infection. Evolving drone technologies and AI developments have made it easier to dream up ambitious designs. Clean, electric autonomous air-cars with VTOL capability could alter how we live, work and travel as well as consumption patterns. Urban planning would change radically if these catch on. And of course, safety norms must evolve.

The "first editions" of such

vehicles will be very expensive (Liberty will cost over \$559,000) but that's true for most technologies. The engineering challenges are interesting. Cars and planes don't have much in common.

Planes are light-weight and streamlined for aerodynamics. They can have fixed wings (these need to be folded if the vehicle is driven); they can have rotors (ala helicopters but again these need to be folded) or they can use jets. The directional controls are very different in 3-D airspace and on the ground.

Weight is less of a consideration with cars. But cars must be designed not to turn turtle cornering at speeds, and they're built to protect passengers in accidents. Many cars have "anti-lift" designs, like spoilers to improve road-holding.

The skies are less crowded than urban roads but aerial collisions, as and when they occur, have a very high fatality rate. A flying car must be designed to operate safely in both modes and it must receive certification for both road safety and air-safety. Moreover, regulators must demarcate urban air-corridors to operate such vehicles. They will need to develop high-tech, machine-readable real-time maps of such corridors to reduce collision risks.

If it's autonomous, the programming must handle both modes. If it's driven/piloted, the person in charge must have both licences. Autonomy is the likely way forward. Even highly trained pilots find it hard to control multi-rotor VTOL aircraft.

Morgan Stanley reckons the air-car market will mature into a \$1-trillion global industry by 2040. For comparison, the global automobile industry is worth around \$2 trillion now. The investments pouring in and the frenzied activity could mean faster development of the sector.

CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED
Registered Office: B-16, Ground Floor, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035
Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1989PLC034995
Tel: 91-11-27156381/82. Telefax: 91-11-27156383.
E-mail: investors@cantabilinternational.com
Website: www.cantabilinternational.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 & 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, August 13, 2021 at 12:00 P.M. at B-16 Lawrence Road Industrial Area, New Delhi-110035**, to, inter-alia, consider, approve and take on record Un-Audited Financial Results of the Company for the first quarter (Q1) ended June 30, 2021 as per Ind AS.

The Notice of the Board meeting is also available on the website of the Company at www.cantabilinternational.com and BSE on (www.bseindia.com) and NSE on (www.nseindia.com)

Further in accordance with the provision of SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insider and circular dated 2nd April, 2019 received from BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited regarding clarification on trading restriction period, the trading window has already been closed from **July 01, 2021** till the completion of 48 hours after the results are made public on **August 13, 2021**.

For CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED
Sd/-
POONAM CHAHAL
Company Secretary and Compliance officer

Place: Delhi
Date: 06th August, 2021

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED
(A Government of India Enterprise)
CIN: L65910DL1986GOI026363
Regd. Office: Room Nos. 1316 - 1349, 3rd Floor, Hotel The Ashok Diplomatic Enclave, 50-B, Chanakyapuri, New Delhi - 110021
Ph: 011-24100385, Email: investors@irfc.nic.in, Web: www.irfc.nic.in

NOTICE
(For the attention of equity shareholders of Indian Railway Finance Corporation Limited)
In order to enable sending of notices and other statutory communications/benefits to shareholders in electronic form, we request the members of Indian Railway Finance Corporation Limited who have not yet registered their email address or bank account details, to register the same in respect of equity shares held in electronic form with the concerned Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd, at irfc@beetalfinancial.com or to their address at Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062, Phone- 91-11-2996 1281-83, Fax- 91-11-2996 1284.

Pursuant to the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and the General No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs the Company has additionally enabled a process for the limited purpose of receiving shareholder communications including annual report and notice of the Annual General Meeting (including remote e-voting instructions) electronically during their financial year 2021-22 and the Members may temporarily update their email address by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd, at irfc@beetalfinancial.com.

For Indian Railway Finance Corporation Ltd
Sd/-
Vijay Shirode
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 06.08.2021

JK TYRE & INDUSTRIES LTD.

Resilience continues ... Sales up by 130% in Q1

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021 (₹ in Crores)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended
		30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Revenue from Operations	2,608.44	1,130.80	9,102.20
2	Operating Profit (PBIDT)	289.48	3.58	1,349.41
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	85.32	(223.67)	496.87
4	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax but after Exceptional items)	74.71	(256.58)	534.35
5	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax and Exceptional items)	44.14	(204.17)	330.93
6	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	56.70	(192.84)	366.57
7	Equity Share Capital	49.25	49.25	49.25
8	Other Equity excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet of previous year			2,623.49
9	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) - Basic / Diluted (₹)	1.88	(8.08)	12.97

Notes:

* Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b):

PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended
	30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
Turnover	1,733.84	800.48	6,170.12
Operating Profit (PBIDT)	188.19	30.80	886.61
Profit before Tax	68.57	(112.82)	395.56
Profit after Tax	44.59	(74.69)	256.45

Standalone Financial Results for the Quarter ended 30.06.2021 can be viewed on websites of the Company, National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. at www.jktyre.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

* The Company has evaluated impact of COVID-19 pandemic on its business, performance and financials. The Company expects to recover the carrying amount of various assets and to maintain sufficient liquidity. The impact of subsequent developments, if any, occurring after approval of these financial results will be recognized prospectively.

* The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (URL of the filings- <http://www.bseindia.com/corporates> and <http://www.nseindia.com/corporates>).

for JK Tyre & Industries Limited
Raghupati Singhania
Chairman & Managing Director

New Delhi
6th August, 2021

Admin. Office : 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002, Fax : 91-11-23322059, Phone : 91-11-66001112, 66001122
Regd. Office : Jaykaygram, PO - Tyre Factory, Kankroli - 313 342, Rajasthan, Website : www.jktyre.com
Corporate Identity Number : L67120RJ1951PLC045966



Parliament Watch

CHINA TRADE



India's trade deficit with China has declined to \$44.02 billion in 2020-21 from \$53.57 billion in 2018-19, Parliament was informed. "India has not joined the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) trade agreement, signed by 15 countries on November 15, 2020," MoS for Commerce and Industry Anupriya Patel said in a written reply to a question in Rajya Sabha on whether India is considering to maintain a separate negative list of items for Chinese imports under the RCEP.

Illustrations: VARANI SAHU

TOY IMPORTS



Minister of State for Commerce and Industry Som Parkash told the Upper House that the government is not considering ban on import of toys but has taken several steps for promoting indigenous toys makers in the country. "No sir," Parkash said replying to a question on whether the government is considering ban on import of toys to promote indigenous toy makers in the country. Further, under Scheme of Funds for Regeneration of Traditional Industries of the Ministry of MSME, 14 clusters in different sectors including khadi, coir, handicraft, handloom, honey, agro and food processing, and bamboo have been set up with an outlay of ₹4,160.46 lakh benefiting 8,839 artisans.

AUTO EXPORT



The decline in India's export of automobiles, including cars is largely due to global economic slowdown and supply chain disruptions due to Covid-19 pandemic, Parliament was informed. Minister of State for Commerce and Industry Anupriya Patel said the government has been taking various proactive measures to boost export of automobiles, which include various incentives/duty remission schemes like Advance Authorisation,

Export Promotion Capital Goods Scheme and Interest Equalisation Scheme, Production-Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobiles and Auto Components, with a financial outlay of ₹57,042 cr over a five-year period, to make the Indian automotive industry more competitive, and wholesale and retail trade and repair of vehicles has been brought under the ambit of MSMEs.

MEDICAL EQUIPMENT EXPORT



India's total exports of medicines in 2020-21 was \$24.01 billion compared to \$20.25 billion in the pre-pandemic period of FY20, Rajya Sabha was informed. The government also said that the total export of medical equipment in FY21 was \$1.81 billion compared to \$1.93 billion in FY20.

ECONOMIC GROWTH



The Covid-19 pandemic has impacted the world economy including India, causing lower economic growth and disruption in production activities, Minister of State for Commerce and Industry Som Parkash told Rajya Sabha. "Government has taken a number of measures to revive economic growth such as special economic and comprehensive package of ₹29.87 lakh crore, 34.5% increase in capital expenditure in Union Budget 2021-22 and relief package of ₹6.29 lakh crore in June 2021," he said in a written reply.

He said the government has been assessing the performance of production of major commodity groups by indicators, such as, Index of Industrial Production and Index of Eight Core Industries, and monthly economic review of ministries also plays a vital role in providing policy inputs to assess the impact of Covid-19.

COVID IMPACT ON TEXTILE



MoS for Textiles Darshana Jardosh told Rajya Sabha that the pandemic has adversely affected the textile sector due to restriction on social gathering, migration of labourers, disruption of supply chain, thus affecting all the stake holders from farmers to traders/exporters in the value chain. However, the situation improved with time and production, exports and employment have become stable.



INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)
CIN: L65910DL1986GOI026363
Regd. Office: Room Nos. 1316 - 1349, 3rd Floor, Hotel The Ashok Diplomatic Enclave, 50-B, Chanakyaपुरi, New Delhi - 110021
Ph: 011-24100385, Email: investors@irfc.nic.in, Web: www.irfc.nic.in

NOTICE


(For the attention of equity shareholders of Indian Railway Finance Corporation Limited)
In order to enable sending of notices and other statutory communications/benefits to shareholders in electronic form, we request the members of Indian Railway Finance Corporation Limited who have not yet registered their email address or bank account details, to register the same in respect of equity shares held in electronic form with the concerned Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd, at irfc@beetalfinancial.com or to their address at Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangiri, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi- 110062, Phone- 91-11-2996 1281-83, Fax- 91-11-2996 1284.

Pursuant to the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and the General No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs the Company has additionally enabled a process for the limited purpose of receiving shareholder communications including annual report and notice of the Annual General Meeting (including remote e-voting instructions) electronically during their financial year 2021-22 and the Members may temporarily update their email address by writing to the company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd, at irfc@beetalfinancial.com.

For Indian Railway Finance Corporation Ltd
Sd/-
Vijay Shrode
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 06.08.2021

muthootfinance.com



* MUTHOOT FINANCE LTD. AND ITS SUBSIDIARIES AS ON 30.06.2021. # Power of Trust TRA's Brand Trust Report (2016-2020)

EXTRACT OF U

PARTICULARS

- Total Revenue (₹)
- Profit Before Tax (₹)
- Profit After Tax (₹)
- Net Worth (₹)
- Earnings Per Share
- Book Value Per Share
- Capital Adequacy

Note: The above is an extract from the website of the Company.

Muthoot Finance Limited

BARODA MUTUAL FUND

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 48 / 2021

NOTICE - CUM - ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ("SAI") OF BARODA MUTUAL FUND ("BARODA MF")

Cessation of Associate Director of AMC

Investors are requested to note that Mr. Rajneesh Sharma, Associate Director of Baroda Asset Management India Limited ("AMC") has ceased to be the Director of the AMC with effect from August 1, 2021.

Accordingly, details of Mr. Rajneesh Sharma, shall be deleted under the section titled (I) - Information about the Sponsor, AMC and Trustee Company - (D) - Asset Management Company - (I) Details of AMC Directors.

In view of the above, relevant changes shall be carried out in SAI of Baroda MF. All the other features and terms & conditions of SAI shall remain unchanged. This Notice-cum-Addendum shall form an integral part of the SAI of the Baroda MF.

For Baroda Asset Management India Limited (Investment Manager to Baroda Mutual Fund)

Place : Mumbai
Date : August 06, 2021

Sd/-
Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

For further details, kindly contact:
Baroda Asset Management India Limited
CIN : U65991MH1992PLC069414
501, Titanium, 5th Floor, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063.
Tel. No. : +91 22 6848 1000 • Toll Free No. : 1800 267 0189
Visit us at : www.barodamf.com • Email : info@barodamf.com

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED
(A Government of India Enterprise)
CIN: L65910DL1986G0026363

Regd. Office: Room Nos. 1316 - 1349, 3rd Floor, Hotel The Ashok Diplomatic Enclave, 50-B, Chanakya Park, New Delhi - 110021
Ph: 011-24100385, Email: investors@irfc.nic.in, Web: www.irfc.nic.in

NOTICE

(For the attention of equity shareholders of Indian Railway Finance Corporation Limited)

In order to enable sending of notices and other statutory communications/benefits to shareholders in electronic form, we request the members of Indian Railway Finance Corporation Limited who have not yet registered their email address or bank account details, to register the same in respect of equity shares held in electronic form with the concerned Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd, at irfc@beetalfinancial.com or to their address at Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangiri, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukdas Mandir, New Delhi- 110062, Phone- 91-11-2996 1281-83, Fax-91-11-2996 1284.

Pursuant to the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and the General No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs the Company has additionally enabled a process for the limited purpose of receiving shareholder communications including annual report and notice of the Annual General Meeting (including remote e-voting instructions) electronically during their financial year 2021-22 and the Members may temporarily update their email address by writing to the company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd, at irfc@beetalfinancial.com.

For Indian Railway Finance Corporation Ltd
Sd/-
Vijay Shirode
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 06.08.2021

MF RULES AMENDED

Sebi asks AMC to invest in NFO depending on risk

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, August 6



Sebi has not quantified the minimum amount that needs to be invested by fund houses

SEBI HAS AMENDED mutual fund rules, which require fund houses to invest in their own schemes depending on the risk level to ensure 'skin in the game'. The current rule requires an investment of 1% of the amount raised in a new fund offer (NFO) or an amount of ₹50 lakh, whichever is less.

The new mutual fund rules will come into force on the 270th day from the date of their publication in the official Gazette, according to the notification dated August 5.

In a notification, Sebi said asset management companies (AMCs) will have to invest in their own schemes based on their risk level. "The asset management company shall invest such amounts in such schemes of the mutual fund, based on risks associated with the schemes, as may be specified by the board from time to time," Sebi said. However, the regulator has not quantified the minimum amount that needs to be invested by fund houses.

In a separate notification dated August 3, the regulator said it will have the right to investigate into complaints received from investors and clients in respect of the rating of securities.

Sebi will have the power to "investigate into complaints received from investors and clients in respect of the rating of securities or any other person on any matter having a bearing on activities of credit rating agency which relate to the rating of securities that are listed or proposed to be listed on a stock exchange".

Sebi to scrap certain disclosure requirements for promoters upon share acquisition

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, August 6

from April 1, 2022.

SEBI ON FRIDAY decided to do away with certain disclosure requirements for acquirers and promoters of companies, and also amend norms that will help boost the corporate bond market. At its meeting here on Friday, the Sebi board gave its nod for amending the takeover regulations in view of the implementation of the System Driven Disclosures (SDD).

Certain disclosure obligations for the acquirers/promoters, etc, pertaining to acquisition or disposal of shares aggregating to 5% and any change of 2% thereafter, annual shareholding disclosures and creation/invocation/release of encumbrance registered in depository systems under takeover regulations would be done away with

In a release issued after the board meeting, Sebi said the relaxations would be done due to implementation of SDD. Under SDD, relevant disclosures are disseminated by the stock exchanges based on aggregation of data from the depositories without human intervention. "The SDD for the said disclosures is already in place and runs parallel with the submission of physical disclosures under the 'takeover regulations'," the release said. The obligation for physical disclosures would be done away with effect from April 1, 2022.

Separately, the regulator would amend the regulations pertaining to listing obligations and disclosure requirements. These relate to issuers who have listed non-convertible debt securities, non-convertible redeemable preference shares, perpetual depository systems under takeover regulations would be done away with

S&P revises Indian Bank's rating outlook to 'stable'

FE BUREAU
Chennai, August 6



S&P GLOBAL RATINGS has revised its rating outlook on Chennai-based public sector lender Indian Bank to stable from negative. At the same time, the rating agency affirmed its 'BBB'-long-term and 'A-3'-short-term issuer credit ratings on the bank.

It also believes Indian Bank's strengthened capital position should be able to weather asset quality pressures while the bank maintains its financial profile in line with its ratings.

S&P Global Ratings said it had revised the rating outlook to reflect its view of Indian Bank's strengthened capital position stemming from its recent equity capital raising through qualified institutional investors, and its improving profitability.

The stable outlook reflects S&P's expectation that the likelihood of support from the central government to Indian Bank will remain very high over the next 24 months.

In its view, Indian Bank is likely to maintain its solid funding and liquidity profile over the next 18-24 months.

"In our view, the stronger capital position should give the bank sufficient cushion against potential asset quality pressures from the brunt of a Covid-19 second wave, our baseline expectation is for Indian Bank's weak loans (gross non-performing loans plus restructured loans) to stay below 12% of total loans, and credit costs not materially worse than 2%," it said.

The rating agency forecast that the pre-diversified risk-adjusted capital (RAC) ratio for Indian Bank to trend above 5% despite its assumption of 10%-12% annual credit growth and elevated credit costs over the next 12-24 months.

Muthoot Fin reports 14% rise in Q1 consolidated net

FE BUREAU

division increased 16% y-o-y to ₹971 crore, and the share in the consolidated profit increased to 99%.

NBFC MUTHOOT FINANCE on Friday reported a 14% year-on-year (y-o-y) increase in its first quarter consolidated net profit to ₹979 crore, largely due to good performance of the gold loan division. Consolidated loan assets under management increased 25% y-o-y to ₹58,135 crore against ₹46,501 crore in the year-ago period.

On a sequential basis, the total income of the gold loan division decreased by 4% to ₹2,715 crore and the net profit declined by 3% quarter-on-quarter, from ₹996 crore reported in Q4 FY21. Loan assets under management fell by ₹145 crore to ₹46,501 crore in the year-ago period.

The company said the net profit of the gold loan

TANEJA AEROSPACE AND AVIATION LIMITED
Regd. Office: Belagondapalli Village, Thally Road, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri Dist., Belagondapalli - 635114, Tamil Nadu, India | Phone : 04347-233508 | Fax : 04347-233414
E-mail : secretarial@taal.co.in | Website : www.taal.co.in | CIN : L62200T21986PLC014660

EXTRACT OF THE STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021
(INR in Lacs, unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30-Jun-21 (Unaudited)	30-Jun-20 (Unaudited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)
1	Total Income from operations (Net)	622.04	595.33	979.41	3,481.50
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	232.60	109.72	202.10	826.79
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	232.60	109.72	202.10	826.79
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	198.91	90.16	101.16	621.85
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	198.91	90.16	99.43	620.12
6	Equity share capital	1,246.54	1,246.54	1,246.54	1,246.54
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	9,210.06
8	Basic and Diluted Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (not annualised) (INR)	0.80	0.36	0.41	2.49

Notes:

1. Additional information on standalone financial results is as follows:

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	30-Jun-21	30-Jun-20	31-Mar-21	31-Mar-21
Revenue from Operations	597.61	593.88	960.83	3,452.01
Profit before tax	232.61	109.73	203.01	827.69
Profit after tax	198.92	90.17	102.07	622.75

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.taal.co.in).

3. The above results have been reviewed by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 05, 2021.

For Taneja Aerospace and Aviation Limited
Ramesh Jaiswara
Whole Time Director

Place : Bangalore
Date : August 05, 2021

INDIGO PAINTS LIMITED
(formerly known as Indigo Paints Private Limited)
Registered Office: Indigo Tower, Street-5, Pallod Farm-2, Baner Road, Pune-411045, Maharashtra CIN:U24114PN2000PLC014669

Extract of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2021
(All amounts in rupees lakhs, unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		Jun 30, 2021 (Unaudited)	Jun 30, 2020 (Refer note 2)	Mar 31, 2021 (Audited)	Mar 31, 2020 (Audited)
1	Total income from operations (net)	15,602.42	10,458.03	72,332.47	72,332.47
2	Net profit for the period before exceptional items *	1,558.00	1,221.52	9,790.72	9,790.72
3	Net profit for the period before tax *	1,558.00	1,221.52	9,790.72	9,790.72
4	Net profit for the period after tax *	1,160.75	839.91	7,085.01	7,085.01
5	Total comprehensive income for the period	1,158.03	839.91	7,074.14	7,074.14
6	Equity share capital	4,756.90	2,902.22	4,756.90	4,756.90
7	Reserves excluding revaluation reserves as at Balance Sheet date	-	-	-	51,592.07
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)	-	-	-	-
	- Basic	2.44	1.86	15.55	15.55
	- Diluted	2.44	1.84	15.54	15.54

* There are no extraordinary items in any of the period disclosed above.

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the Stock Exchange website (URL: https://www.bseindia.com, https://www.indigopaints.com) and also on the Company's website (URL: https://www.indigopaints.com).

2. The financial results for the quarter ended June 30, 2020 have not been reviewed by the Statutory auditor of the Company, however the management has exercised necessary due diligence to ensure that the financial results for the period provide a true and fair view of the Company's affairs.

For Indigo Paints Limited
Sd/-
Hemant Jalan
Chairman & Managing Director
DIN: 00080942

Place : Pune
Date : August 06, 2021

MAGNUM VENTURES LIMITED
CIN: L21093DL1980PLC010492
Regd. Office: HNO-MN01, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi-110024
Tel: +91-11-42420015
E-mail: magnumventures@gmail.com Website: www.magnumventures.in

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021
(Amount in lacs)

Particulars	Quarter ended		Year Ended	
	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
Total income from operations (net)	5035	7730	246	18241
Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(71)	822	(711)	20
Net Profit/ (Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(71)	822	(711)	20
Net Profit/ (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(71)	936	(711)	134
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(71)	963	(711)	161
Equity Share Capital	3760.1884	3760.1884	3760.1884	3760.1884
Other Equity (Reserves) excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	(9432.83)
Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	-	-	-	-
Basic:	(0.19)	2.56	(0.189)	0.43
Diluted:	(0.19)	2.56	(0.189)	0.43

Notes:

1. The Above financial results for the quarter ended June 30, 2021 were reviewed by Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on August 06, 2021 and also have been reviewed by the Statutory Auditors.

2. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter ended June 30, 2021 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2021 is available on the website of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website www.magnumventures.in

3. Nil investors complaint was pending at the beginning of the quarter. During the quarter no complaint was received, Nil Complaint was pending as on June 30, 2021.

By the order of the Board
For Magnum Ventures Limited
Sd/-
Abhey Jain
Whole-time Director

Place: Ghaziabad
Date: 06.08.2021

ANUH PHARMA LTD.
CIN : L24230MH1960PLC011586
Regd. Office : 3-A, North Wing, Shiv Sagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018
Tel: +91 22 6622 7575; Fax: +91 22 6622 7600; Email: anuh@sk1932.com; Website: www.anuhpharma.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021
(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	3 months ended		3 months ended		12 months ended	
		30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
1.	Total Revenue from Operation	11,727.17	9,714.69	12,424.77	43,196.01		
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax	711.43	166.07	2,230.16	3,855.14		
3.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	559.03	89.69	1,672.10	2,843.63		
4.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	555.54	97.62	1,682.69	2,843.63		
5.	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs 5/- per share)	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00		
6.	Other Equity (Excluding revaluation reserve)	-	-	-	-		16,558.75
7.	Earnings per equity share (Non annualised) (in Rs.) (Refer note no. 3 below)	-	-	-	-		-
	- Basic Rs.	1.12	0.18	3.34	5.67		
	- Diluted Rs.	1.12	0.18	3.34	5.67		

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended on June 30, 2021, filed with the Stock Exchange as per Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended on June 30, 2021 is available on the Stock Exchange website viz. www.bseindia.com and on the Company's website i.e. www.anuhpharma.com.

2. Other Financial Indicators

Particulars	3 months ended		3 months ended		12 months ended	
	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
EBITDA	1,028.16	562.46	2,648.00	5,512.17		
% of EBITDA Margin	8.77	5.79	21.31	12.76		
(Adjusted to Forex gain / loss and mark to market on Investment in Mutual Funds)	1,049.59	526.37	2,736.53	5,372.46		
% of Adjusted EBITDA Margin	8.95	5.42	22.02	12.44		

3. On 22/09/2020, the Company passed a circular resolution for allotment of 2,50,56,000 Equity Shares of Rs. 5/- each as fully paid-up Bonus Equity Shares in the ratio of 1:1 to all registered shareholders as on the record date. Consequently, in accordance with Ind AS 33 "Earnings per Share", the basic and diluted earnings per share for all the periods presented above have been adjusted to give effect to the aforesaid issue of Bonus Shares.

For Anuh Pharma Ltd.
Sd/-
Ritesh Shah / Vivek Shah
Joint Managing Director
(DIN: 02496729) / (DIN: 02878724)

Place : Mumbai
Date : August 06, 2021

PATEL ENGINEERING LTD.
CIN:L99999MH1949PLC007039
Regd. Office : Patel Estate Road, Jogeshwari (W), Mumbai- 400 102
Tel No. +91 22 26767500, 26782916 | Fax +91 22 26782455, 26781505 | Email: investors@pateleng.com | Website: www.pateleng.com

EXTRACTS OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021
(Rs. in Crores (except EPS))

Particulars	Standalone				Consolidated			
	Quarter ended June 30, 2021		Quarter ended March 31, 2021		Quarter ended June 30, 2020		Quarter ended March 31, 2020	
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income from Operation (Net)	575.35	623.50	226.12	1,719.12	666.25	733.58	276.04	1,994.79
Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items and /or Extraordinary items)	10.74	(10.88)	(37.27)	(121.13)	8.56	(14.71)	(33.43)	(129.65)
Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.74	(104.79)	(37.27)	(215.04)	8.56	(228.88)	(33.43)	(343.82)
Profit / (Loss) for the period after tax	3.50	(17.35)	(36.09)	(138.39)	(2.46)	(145.95)	(32.29)	(272.94)
Total Comprehensive Income for the period	3.37	(20.60)	(36.23)	(142.14)	4.69	(142.72)	(43.84)	(286.23)
Equity Share Capital	46.55	46.55	41.74	46.55	46.55	46.55	41.74	46.55
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	-	2,445.80	-	-	-	2,273.02
Earnings Per Share (of Re. 1/- each)	-	-	-	-	-	-	-	-
Basic:	0.08	(0.40)	(0.87)	(3.23)	(0.01)	(3.29)	(1.01)	(6.78)
Diluted:	0.08	(0.40)	(0.87)	(3.23)	(0.01)	(3.29)	(1.01)	(6.78)

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchange www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Company www.pateleng.com

2. The above financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board at their respective meetings held on August 06, 2021.

3. The company is engaged in the Engineering and construction industry which is seasonal in character. The company's margins in the quarterly results vary based on the accrual of cost, recognition of income in different quarters etc. due to the nature of its receipt of claims/awards. In view of this, financial results for the quarter are not comparable with quarterly/annual results.

4. The company is continuously monitoring the situation caused by COVID - 19 and taking necessary steps to improve its efficiencies in execution and the financial outcome. The company has assessed the impact of pandemic on its financials based on the external and internal informations available upto the date of approval of the financial result and expects to recover the carrying value of its assets.

5. The allotment Committee of the Company vide its meeting dated July 16, 2021 approved the allotment of 1,37,77,470 Equity shares of face value Re. 1 each at a price of Rs. 14.78 per share (i.e. price for conversion of debt into equity) to Canara Bank against One time Settlement executed with the Bank.

6. The Company continue to maintain 100% asset cover based on the valuation report for the secured non convertible debentures issued by it.

7. Figures for the quarter ended 31st March, 2021 are the balancing figures between the audited figures for the year ended 31st March, 2021 and the published Year-to-Date figures upto 31st December, 2020.

8. The previous year figures have been regrouped / rearranged/recasted wherever necessary for the purpose of comparison.

For Patel Engineering Ltd.
Sd/-
Kavita Shirvaikar
Whole Time Director & CFO

Place : Mumbai
Date : August 06, 2021

AKSH OPTIFIBRE LIMITED
Registered Office: F-1

<p>ई-नीलामी बिक्री सूचना गुलदती रिटेल इंडिया लिमिटेड (परिसमापनाधीन) पंजीकृत कार्यालय : एच-66, नबीबी गार्डन, नई दिल्ली-110027</p> <p>परिसमापक : अरुण चक्रवर्त</p> <p>परिसमापक का पता : 727, अमरप्रीत, मेरठ-250002, उ.प्र.</p> <p>ई-मेल : chadharam@yaho.com सम्पर्क नं. : +91 9810286133</p>										
<p>ऋणधरो अक्षमता तथा वित्तीय स्थिति, 2016 के तहत अधिनियम को बिक्री</p> <p>ई-नीलामी</p> <p>11.03.2021 को नील की गई वस्तु, से 1.00 तक</p> <p>5 मिन्ट प्रत्येक के अधिनियम विवरण सहित।</p>										
<p>मानवीय राष्नीय कम्पनी विधि अधिनियम, नई दिल्ली पीठ के अंतर्गत दिनांक 31.08.2020 द्वारा नियुक्त परिसमापक के कर्मचारी में गुलदती रिटेल इंडिया लिमिटेड की परिसमापक समया का पना निर्मित करने वाली गुलदती रिटेल इंडिया लिमिटेड (परिसमापक) के स्वामित्व की अधिनियम तथा पंजीकृत नीलामी स्थलियों को बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म (ncltauction.auctiontigger.net) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी।</p>										
<table><thead><tr><th>आवृत्ति</th><th>आवृत्तित मूल्य एवं इंग्रहणी</th><th>वृद्धि राशि</th></tr></thead><tbody><tr><td>डीकोरिफ 20; नौलैरिया मॉल; मयूर विहार-1; नई दिल्ली-110091 पर दुकान</td><td>₹1,44,000,000/-</td><td>₹5,00,000/-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>₹0,00,000/-</td></tr></tbody></table>	आवृत्ति	आवृत्तित मूल्य एवं इंग्रहणी	वृद्धि राशि	डीकोरिफ 20; नौलैरिया मॉल; मयूर विहार-1; नई दिल्ली-110091 पर दुकान	₹1,44,000,000/-	₹5,00,000/-			₹0,00,000/-	
आवृत्ति	आवृत्तित मूल्य एवं इंग्रहणी	वृद्धि राशि								
डीकोरिफ 20; नौलैरिया मॉल; मयूर विहार-1; नई दिल्ली-110091 पर दुकान	₹1,44,000,000/-	₹5,00,000/-								
		₹0,00,000/-								

<p>ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:-</p> <p>1. ई-नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता मेरठ में ए-प्रोमेगरेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (अक्षय टाइगर) के माध्यम से “बडी ई जैस है”, “जो भी जैस है” तथा “जो कुछ भी वह है” आधार पर संरक्षित की जायेगी।</p> <p>2. अधिनियम के विवरण, अधिनियम ई-नीलामी सिद्धि प्रथम, अधिनियम अंतरद्वैतीय प्रथम, अधिनियम अंतरद्वैतीय प्रथम, अधिनियम नीलामी धरणी के सामान्य नियम एवं शर्तों सहित सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट: https://ncltauction.auctiontigger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क नं: की प्रथम गुलदती खबर : +91-9722778282/6351896834/07968136855/854 ई-मेल : praveen.thevar@auactiontigger.net, nclt@auactiontigger.net support@auactiontigger.net</p>	
<p>अरुण चक्रवर्त परिसमापक</p> <p>पता: IBB/1PA-001/IP-P00165/2017-18/10334</p>	

<p>निधि : 07.08.2021</p> <p>स्थान : मेरठ</p>	
--	--

<p>प्रद्युम्ना स्टील्स लिमिटेड CIN: L27109DL1972PLC319974</p> <p>पंजी. कार्यालय : प्लेट नं. 702, सार्वभौमिक, कंचनजंगा, 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 फोन : +91 11 23310004-05, ईमेल : hcsindl@yahoo.co.in, वेबसाइट : www.psteelltd.com</p> <p>सार्वजनिक सूचना</p> <p>यह नोटिस अधिसूचना संख्या डीएनबीओआर (पीठ) सीसी.सं. 065/03.10.001/2015-16 दिनांक 9 जुलाई, 2015 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र/अधिसूचना/निर्देश के अनुसंधान के संदर्भ में दिया गया है, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित इलेक्ट्रॉनिक शरीरों से संबंधित डिजिटल/डिजिटल प्रकृतियों के माध्यम से और भौतिक रूप से धारित इलेक्ट्रॉनिक शरीरों के संबंध में कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेरठ सील फाइनेंशियल एंड कंजूर सॉल्यूशंस (प्रा) लिमिटेड को ifrc@beetalfinancial.com पर या उनके पते बीटल रोड, तीसरी फ्लोर, 99 बंगला, स्वामीय शॉपिंग सेंटर के पते, वादा हरदुवास मंदिर के पास, नई दिल्ली-110062, फोन- 91-11-29961281-83, फैक्स- 91-11-29961284, लिखित रूप में पंजीकृत करें।</p>	
<p>कंपनी ने श्री सुरीश लाल बिस्मोवाल (DIN: 00642510) को कंपनी के सभी निदेशक/शेयरधारकों के अनुमोदन से कंपनी के निदेशक (अंतर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किया है, जिन्के पास वित्त, कराधान, मुकदमेबाजी, वाणिज्यिक, बैंकिंग मामले के क्षेत्र में व्यापक विशेषज्ञता है, जो कंपनी को व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करेगा।</p> <p>लेनदार सहित कोई भी व्यक्ति, जिसे कंपनी के निदेशक पद में प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति हो, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीओएस), भारतीय रिजर्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को लिख सकता है।</p>	
<p>दिनांक: 06.08.2021</p> <p>स्थान : नई दिल्ली</p>	<p>कृते प्रद्युम्ना स्टील्स लिमिटेड सुमन लात सारस्वत (निदेशक) DIN : 06932165</p>

<p>MEGA CORPORATION LTD. CIN:L65100DL1985PLC092375 Regd. Office: NSIC Complex, Maa Anandmayee Marg, Okhla Phase-III, New Delhi-110020 Ph: +91 11 40535181 Email: info@megacorp.ltd.com Website: www.megacorp.ltd.com</p> <p>NOTICE</p> <p>Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company which was re-scheduled to be held on Friday, 06th August, 2021, is now postponed and further re-scheduled to be held on Friday, August 13, 2021 inter alia, to consider, approve and take on record the Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended on March 31, 2021.</p> <p>The Said Notice may be accessed on the Company’s website at www.rollatainers.in & the website of BSE www.bseindia.com and NSE i.e. www.nseindia.com</p> <p>For Rollatainers Limited Sd/- Pyush Gupta (Director) Date: 06.08.2021 Place: New Delhi DIN: 03392865</p>	
<p>Place: New Delhi Date: 06/08/2021</p>	<p>Sd/- (SURENDRA CHHALANI) Director and CFO Din: 00020747</p>

<p>सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 1911 से आपके लिए “सेन्ट्रल” “CENTRAL TO YOU SINCE 1911” देशीय कार्यालय (उत्तर) दिल्ली, 1398, प्रथम तल, चांदनी चौक दिल्ली-110006, फोन: 8800013560, 8800013562</p> <p>सार्वजनिक सूचना</p> <p>आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी इन्विरापुर्मण शाखा, ए-8, अहिंसा खण्ड-2, इन्विरापुर्मण, गाजियाबाद को हमारा नए परिसर 11-ए, भूतल, गौर प्रेविटी मॉल (इंजी डे के पास), इन्विरापुर्मण, गाजियाबाद में शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्टिंग की अनुमानित तिथि 16.08.2021 को या उससे पहले है। (केन्द्रीय प्रबंधक)</p>	
<p>दिनांक: 06.08.2021</p> <p>स्थान : नई दिल्ली</p>	

<p>इंडियन रेलवे फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पारत बरकरार का उपयुक्त) CIN: L65910DL1986GOI026363 पंजीकृत कार्यालय: मंगरा रोड 1316-1349, तीसरा फ्लोर, स्टेटल डी असेक डिलेक्टोरेट एन्वेलो, 50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 फोन: 01124100385, ईमेल investors@irfc.nic.in, वेबसाइट: www.irfc.nic.in</p> <p>सूचना</p> <p>(इंडियन रेलवे फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इक्विटी शेयरधारक कृपया ध्यान दें)</p> <p>शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस और अन्य सार्वजनिक सूचना/लाभ भेजने में सक्षम बनाने के लिए, हम इंडियन रेलवे फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों से अनुमति करते हैं कि फिनान्सें अभी तक अपना ईमेल पता या बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं किया है, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित इलेक्ट्रॉनिक शरीरों से संबंधित डिजिटल/डिजिटल प्रकृतियों के माध्यम से और भौतिक रूप से धारित इलेक्ट्रॉनिक शरीरों के संबंध में कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेरठ सील फाइनेंशियल एंड कंजूर सॉल्यूशंस (प्रा) लिमिटेड को ifrc@beetalfinancial.com पर या उनके पते बीटल रोड, तीसरी फ्लोर, 99 बंगला, स्वामीय शॉपिंग सेंटर के पते, वादा हरदुवास मंदिर के पास, नई दिल्ली-110062, फोन- 91-11-29961281-83, फैक्स- 91-11-29961284, लिखित रूप में पंजीकृत करें।</p>	
<p>कार्योपेत कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14 /2020, 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17 /2020 और 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 02 /2021 अनुसार, कम्पनी ने अपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से सार्वजनिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित (सिमेंट ई-वोटिंग मिडिया सहित) शेयरधारक सूचना प्राप्त करने के तरीके उद्देश्य के लिए एक प्रक्रिया को अतिरिक्त रूप से सक्षम किया है और सदस्य कम्पनी के वित्तीय वर्ष और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेरठ सील फाइनेंशियल एंड कंजूर सॉल्यूशंस (प्रा) लिमिटेड को ifrc@beetalfinancial.com पर अपना ईमेल अस्थायी रूप से अपडेट कर सकते हैं।</p> <p>इंडियन रेलवे फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए हरसा /- निखिल शिरोडे कंपनी सचिव</p>	

<p>बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda 67 /69, मेहरा चंद मार्केट, लोधी रोड नई दिल्ली-110003, फोन 011-24615310</p> <p>(नियम 8(1)) उधारकर्ता को कम्पनी की मांग की सूचना (सर्पेक्षी अधिनियम 2002 की धारा 15(4) के तहत)</p> <p>जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिपरीक्षणियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बड़ोदा, लोधी रोड शाखा, नई दिल्ली-110003 का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमांकनी 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त शरीरों श्रीमती मंजु (कर्जदार) और श्री अशोक कुमार (सह-कर्जदार) को मार्ग सूचना दिनांक 25.08.2021 को जारी किया का निम्नलिखित अधिसूचना संख्या रू 7.95 (क. सात करोड़ पिचमने लाख मात्र) और दिनांक 11. 01.2021 से वधिय का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुताना करने को कहा गया था।</p>	
<p>ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एगदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों को इस्तेमाल के अन्तर्गत 31.07.2021 को लिख है।</p> <p>विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसभाधारकों को एतद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ बड़ोदा, के प्रभार वास्तु के रू.7.95 (क. सात करोड़ पिचमने लाख मात्र) और दिनांक 11.01.2021 से वधिय का ब्याज, लागत एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।</p> <p>उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिपरीक्षणियों को नुक़्त करने हेतु उपलब्ध समया सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।</p>	
<p>अचल संपत्ति का विवरण</p> <p>प्लेट नं. 403, मौजा मरिजद मोठ, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती मंजु वर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल 560 वर्ग गज, चौड़ी: उत्तर में – प्लेट नं. 402, दक्षिण में – अन्य की संपत्ति, पूरब में – प्लेट नं. 404, पश्चिम में – रोड</p> <p>दिनांक : 31.07.2021, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ोदा</p>	

<p>लोधी रोड शाखा 67 /69, मेहरा चंद मार्केट, लोधी रोड नई दिल्ली-110003, फोन 011-24615310</p> <p>(नियम 8(1)) उधारकर्ता को कम्पनी की मांग की सूचना (सर्पेक्षी अधिनियम 2002 की धारा 15(4) के तहत)</p> <p>जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिपरीक्षणियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बड़ोदा, लोधी रोड शाखा, नई दिल्ली-110003 का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमांकनी 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त शरीरों श्रीमती मंजु (कर्जदार) और श्री अशोक कुमार (सह-कर्जदार) को मार्ग सूचना दिनांक 25.08.2021 को जारी किया का निम्नलिखित अधिसूचना संख्या रू 7.95 (क. सात करोड़ पिचमने लाख मात्र) और दिनांक 11. 01.2021 से वधिय का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुताना करने को कहा गया था।</p>	
<p>ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एगदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों को इस्तेमाल के अन्तर्गत 31.07.2021 को लिख है।</p> <p>विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसभाधारकों को एतद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ बड़ोदा, के प्रभार वास्तु के रू.7.95 (क. सात करोड़ पिचमने लाख मात्र) और दिनांक 11.01.2021 से वधिय का ब्याज, लागत एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।</p> <p>उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिपरीक्षणियों को नुक़्त करने हेतु उपलब्ध समया सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।</p>	
<p>अचल संपत्ति का विवरण</p> <p>प्लेट नं. 403, मौजा मरिजद मोठ, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती मंजु वर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल 560 वर्ग गज, चौड़ी: उत्तर में – प्लेट नं. 402, दक्षिण में – अन्य की संपत्ति, पूरब में – प्लेट नं. 404, पश्चिम में – रोड</p> <p>दिनांक : 31.07.2021, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ोदा</p>	

<p>बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda 67 /69, मेहरा चंद मार्केट, लोधी रोड नई दिल्ली-110003, फोन 011-24615310</p> <p>(नियम 8(1)) उधारकर्ता को कम्पनी की मांग की सूचना (सर्पेक्षी अधिनियम 2002 की धारा 15(4) के तहत)</p> <p>जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिपरीक्षणियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बड़ोदा, लोधी रोड शाखा, नई दिल्ली-110003 का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमांकनी 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त शरीरों श्रीमती मंजु (कर्जदार) और श्री अशोक कुमार (सह-कर्जदार) को मार्ग सूचना दिनांक 25.08.2021 को जारी किया का निम्नलिखित अधिसूचना संख्या रू 7.95 (क. सात करोड़ पिचमने लाख मात्र) और दिनांक 11. 01.2021 से वधिय का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुताना करने को कहा गया था।</p>	
<p>ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एगदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों को इस्तेमाल के अन्तर्गत 31.07.2021 को लिख है।</p> <p>विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसभाधारकों को एतद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ बड़ोदा, के प्रभार वास्तु के रू.7.95 (क. सात करोड़ पिचमने लाख मात्र) और दिनांक 11.01.2021 से वधिय का ब्याज, लागत एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।</p> <p>उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिपरीक्षणियों को नुक़्त करने हेतु उपलब्ध समया सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।</p>	
<p>अचल संपत्ति का विवरण</p> <p>प्लेट नं. 403, मौजा मरिजद मोठ, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती मंजु वर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल 560 वर्ग गज, चौड़ी: उत्तर में – प्लेट नं. 402, दक्षिण में – अन्य की संपत्ति, पूरब में – प्लेट नं. 404, पश्चिम में – रोड</p> <p>दिनांक : 31.07.2021, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ोदा</p>	

<p>कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित परिपत्र IV के अनुसार]</p> <p>जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (इसके पश्चात "कॉर्पोर अधिनियम") सम्बन्धित के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते नीचे उल्लिखित के अनुसार प्रवर्तन से मांग सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुतान करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखित के अनुसार मांग सूचना निर्गत की।</p>																					
<p>अक्षतानों द्वारा नीचे के पुनर्भुतान में अक्षमता करने के कारण विवेक रूप से निम्नलिखित उधारकर्ताओं तथा उनमान्यता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उचित निर्णयों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।</p> <p>व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित उधारकर्ताओं और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि तथा उदा पर ब्याज और मांग सूचनाओं की तिथि से दृढाक्षरक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड के अधिनियम का विषय होगा।</p>																					
<table><thead><tr><th>क्र. सं.</th><th>नाम</th><th>व्यक्तिगत (बी)/व्यक्तिगत (ए)</th><th>मांग सूचना की लागत तथा तिथि</th><th>कब्जा करने की तिथि</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>6051120</td><td>नीलम राय, प्लेट नं. 366, पॉस्ट डीजी-111, प्रथम तल, शेरी पार्क/डी, विकारापुर, नई दिल्ली-110018, सार्व 116, प्रथम तल, इलाहाबाद रोड, दिल्ली-110001</td><td>₹. 63,14,258/- तथा 14.05.2021</td><td>03-08-2021</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>कब्जा का प्रभार (सांकेतिक/भौतिक)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>सांकेतिक</td></tr></tbody></table>	क्र. सं.	नाम	व्यक्तिगत (बी)/व्यक्तिगत (ए)	मांग सूचना की लागत तथा तिथि	कब्जा करने की तिथि	1.	6051120	नीलम राय, प्लेट नं. 366, पॉस्ट डीजी-111, प्रथम तल, शेरी पार्क/डी, विकारापुर, नई दिल्ली-110018, सार्व 116, प्रथम तल, इलाहाबाद रोड, दिल्ली-110001	₹. 63,14,258/- तथा 14.05.2021	03-08-2021					कब्जा का प्रभार (सांकेतिक/भौतिक)					सांकेतिक	
क्र. सं.	नाम	व्यक्तिगत (बी)/व्यक्तिगत (ए)	मांग सूचना की लागत तथा तिथि	कब्जा करने की तिथि																	
1.	6051120	नीलम राय, प्लेट नं. 366, पॉस्ट डीजी-111, प्रथम तल, शेरी पार्क/डी, विकारापुर, नई दिल्ली-110018, सार्व 116, प्रथम तल, इलाहाबाद रोड, दिल्ली-110001	₹. 63,14,258/- तथा 14.05.2021	03-08-2021																	
				कब्जा का प्रभार (सांकेतिक/भौतिक)																	
				सांकेतिक																	
<p>प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण : प्रोडिक्ट प्लेट संख्या 366, मां 366/कलम 65 वर्ग मीटर, पॉस्ट डीजी-111, प्रथम तल, शेरी पार्क/डी, विकारापुर, नई दिल्ली में स्थित। उपरर विवरण दिनांक 08.08.2011 में अधिक स्पष्ट वर्णित। नीचे वर्णन के पक्ष में डिक्लैरेशन।</p>																					
<table><tbody><tr><td>2.</td><td>6092190</td><td>1. सर्वोच्च कुशा चैन 2. सांकेतिक 3. सांकेतिक निवेश निवेश : महानन नं. 125, गली नं. 15, वेस्ट आज़ाद नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051</td><td>₹. 47,05,624/- तथा 14.05.2021</td><td>03-08-2021</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>कब्जा का प्रभार (सांकेतिक/भौतिक)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>सांकेतिक</td></tr></tbody></table>	2.	6092190	1. सर्वोच्च कुशा चैन 2. सांकेतिक 3. सांकेतिक निवेश निवेश : महानन नं. 125, गली नं. 15, वेस्ट आज़ाद नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051	₹. 47,05,624/- तथा 14.05.2021	03-08-2021					कब्जा का प्रभार (सांकेतिक/भौतिक)					सांकेतिक						
2.	6092190	1. सर्वोच्च कुशा चैन 2. सांकेतिक 3. सांकेतिक निवेश निवेश : महानन नं. 125, गली नं. 15, वेस्ट आज़ाद नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051	₹. 47,05,624/- तथा 14.05.2021	03-08-2021																	
				कब्जा का प्रभार (सांकेतिक/भौतिक)																	
				सांकेतिक																	
<p>प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण : सम्पत्ति नं. 125 (भाग) प्लेट नं. 5, मां 366/कलम 45 वर्ग मी, खबर नं. 174, 175 में, मुदरली नं. 572/177, अमवती गली नं. 15, वेस्ट आज़ाद नगर, मां 366/कलम 65, इलाहाबाद रोड, दिल्ली-110051 में स्थित। विवरण दिनांक 13.03.2013 के अनुसार, मौकियत के पक्ष में: सीमार्ग : पूर्व : सारक, पश्चिम : अन्य की संपत्ति, उत्तर : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : अन्य की संपत्ति।</p>																					
<table><tbody><tr><td>3.</td><td>21189967</td><td>1. चन्द प्रकाश बजाज उर्फ चन्द बजाज, 2. सुरेश बजाज, दोनों दिल्ली जेडी-30, लिवाली एन्वेलोय, डीआर गार्डन, दिल्ली-110027 तथा 3. मैरस एन्वेलोय ब्रदर्स, एमके पाठनर के माध्यम में, 2606, नई सारक, दिल्ली-110018</td><td>1,10,25,300.24 तथा 22.05.2021</td><td>04.08.2021</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>कब्जा का प्रभार (सांकेतिक/भौतिक)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>सांकेतिक</td></tr></tbody></table>	3.	21189967	1. चन्द प्रकाश बजाज उर्फ चन्द बजाज, 2. सुरेश बजाज, दोनों दिल्ली जेडी-30, लिवाली एन्वेलोय, डीआर गार्डन, दिल्ली-110027 तथा 3. मैरस एन्वेलोय ब्रदर्स, एमके पाठनर के माध्यम में, 2606, नई सारक, दिल्ली-110018	1,10,25,300.24 तथा 22.05.2021	04.08.2021					कब्जा का प्रभार (सांकेतिक/भौतिक)					सांकेतिक						
3.	21189967	1. चन्द प्रकाश बजाज उर्फ चन्द बजाज, 2. सुरेश बजाज, दोनों दिल्ली जेडी-30, लिवाली एन्वेलोय, डीआर गार्डन, दिल्ली-110027 तथा 3. मैरस एन्वेलोय ब्रदर्स, एमके पाठनर के माध्यम में, 2606, नई सारक, दिल्ली-110018	1,10,25,300.24 तथा 22.05.2021	04.08.2021																	
				कब्जा का प्रभार (सांकेतिक/भौतिक)																	
				सांकेतिक																	
<p>प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण : अक्षतान संख्या नं. 2622-2626, मां 125 वर्ग मी, गली बट्टरमूल, रोडनगर, नई सारक, दिल्ली-110006 में स्थित। उपरर विवरण दिनांक 04.10.2012 में अधिक स्पष्ट वर्णित, चन्द बजाज के पक्ष में डिक्लैरेशन। सीमार्ग : पूर्व : गली, पश्चिम : अन्य की संपत्ति, उत्तर : प्लॉट का भाग, दक्षिण : सेर की संपत्ति।</p> <p>निधि : 05.08.2021</p> <p>स्थान : दिल्ली</p>	<p>₹/- अधिकृत प्राधिकारी</p> <p>टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड</p>																				

<p>यूको बैंक (यूनाइटेड बँकरा का उपयुक्त)</p> <p>UCO BANK (A State of India Undertaking)</p> <p>शाखा कार्यालय: डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली</p> <p>कच्चा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)), अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के तहत</p>	
<p>जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं. 2002 का 54) के अंतर्गत यूको बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 24.05.2021 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदार: आस्था पत्नी कमल मोटवानी, कमल मोटवानी एवं चम्पा नानी, को सूचना में उल्लिखित राशि ₹.28,89,285/- (अठाइस लाख नवासी हजार दो सौ पचासी रुपये मात्र) 31.03.2021 तक, (30.09.2020 तक समावेशी ब्याज), उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर, आकर्षिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार /गारंटर के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार /गारंटर /रेहिन तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 04 अगस्त, 2021 को ले लिया है। कर्जदार /गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन ₹.28,89,285/- (अठाइस लाख नवासी हजार दो सौ पचासी रुपये मात्र) 31.03.2021 तक, (30.09.2020 तक समावेशी ब्याज) और उस पर आगे ब्याज के साथ, यूको बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के मुताबत के अधीन होगा।</p>	
<p>ऋणियों /गारंटयों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13(3) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।</p> <p>अचल सम्पत्ति का विवरण</p> <p>श्रीमती आस्था पत्नी कमल मोटवानी एवं श्री कमल मोटवानी पुत्र रघु श्री गोपाल दास मोटवानी के स्वामित्व में अवसली प्लेट नम्बर 216, पॉकेंट-डी, सेक्टर बी-2, नरेला, नई दिल्ली में स्थित अचल सम्पत्ति। परिमाण क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर।</p>	
<p>स्थान: नई दिल्ली</p> <p>तिथि: 04.08.2021</p>	<p>प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली</p>

<p>यूको बैंक (यूनाइटेड बँकरा का उपयुक्त)</p> <p>UCO BANK (A State of India Undertaking)</p> <p>शाखा कार्यालय: डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली</p> <p>कच्चा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)), अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के तहत</p>	
<p>जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं. 2002 का 54) के अंतर्गत यूको बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 24.05.2021 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदार: आस्था पत्नी कमल मोटवानी, कमल मोटवानी एवं चम्पा नानी, को सूचना में उल्लिखित राशि ₹.28,89,285/- (अठाइस लाख नवासी हजार दो सौ पचासी रुपये मात्र) 31.03.2021 तक, (30.09.2020 तक समावेशी ब्याज), उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर, आकर्षिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार /गारंटर के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार /गारंटर /रेहिन तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 04 अगस्त, 2021 को ले लिया है। कर्जदार /गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन ₹.28,89,285/- (अठाइस लाख नवासी हजार दो सौ पचासी रुपये मात्र) 31.03.2021 तक, (30.09.2020 तक समावेशी ब्याज) और उस पर आगे ब्याज के साथ, यूको बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के मुताबत के अधीन होगा।</p>	
<p>ऋणियों /गारंटयों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13(3) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।</p> <p>अचल सम्पत्ति का विवरण</p> <p>श्रीमती आस्था पत्नी कमल मोटवानी एवं श्री कमल मोटवानी पुत्र रघु श्री गोपाल दास मोटवानी के स्वामित्व में अवसली प्लेट नम्बर 216, पॉकेंट-डी, सेक्टर बी-2, नरेला, नई दिल्ली में स्थित अचल सम्पत्ति। परिमाण क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर।</p>	
<p>स्थान: नई दिल्ली</p> <p>तिथि: 04.08.2021</p>	<p>प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली</p>

<p>MEGA CORPORATION LTD. CIN:L65100DL1985PLC092375 Regd. Office: NSIC Complex, Maa Anandmayee Marg, Okhla Phase-III, New Delhi-110020 Ph: +9</p>
